



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 320] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 16, 1974/अग्रहायण 25, 1896  
No. 320] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 16, 1974/AGRAHAYANA 25, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 1974

**G.S.R. 689(E).**—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Second Amendment) Act, 1974 (Haryana Act No. 17 of 1974) as in force in the State of Haryana at the date of this notification, subject to the following modifications, namely:—

*Modifications*

1. In section 2,—

- (i) for the words and figures "the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961", the words and figures "the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961, as in force in the Union territory of Chandigarh" shall be substituted;
- (ii) for the words "one rupee and fifty paise", the words "fifty paise" shall be substituted.

2. Section 3 shall be omitted.

#### ANNEXURE

The Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Second Amendment) Act, 1974 (Haryana Act No. 17 of 1974), as extended to the Union territory of Chandigarh.

An Act to amend the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title.**—This Act may be called the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Second Amendment) Act, 1974.

2. **Amendment of Section 23 of Punjab Act 23 of 1961.**—In section 23 of the Punjab Agricultural Produce Markets Act, 1961, as in force in the Union territory of Chandigarh (hereinafter referred to as the principal Act), for the words “fifty paise”, the words “two rupees” shall be substituted.

3. [Omitted].

[No. U-11015/8/74-UTL.(127)]

G. K. BHANOT, Jt. Secy.

#### गृह सञ्चालन

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1974

सा० का० नि० 689 (प्र).—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पंजाब कृषि उत्पादन बाजार (हरियाणा द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का हरियाणा अधिनियम 17) का जो इस अधिनियम की तारीख पर हरियाणा राज्य में प्रवृत्त है, निम्नलिखित उपास्तरो के अध्वधीन रहते हुए, चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र में एतद्वारा विस्तार करती है, अर्थात्:—

#### उपास्तर

1. धारा 2 में,—

(i) “पंजाब कृषि उत्पादन बाजार अधिनियम 1961” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “पंजाब कृषि उत्पादन बाजार अधिनियम 1961, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा-प्रवृत्त” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) “एक रुपया पचास पैसे” शब्दों के स्थान पर, “पचास पैसे” शब्द रखे जाएंगे ।

2. धारा 3 का खोप किया जाएगा ।

#### उपाबन्ध

पंजाब कृषि उत्पादन बाजार (हरियाणा द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1974 (1974 का हरियाणा अधिनियम 17) जिसका चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार किया गया है ।

पंजाब कृषि उत्पादन बाजार अधिनियम 1961 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में हरियाणा राज्य के विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम इस अधिनियम का नाम पंजाब कृषि उत्पादन बाजार (हरियाणा द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1974 है ।

2. पंजाब अधिनियम (1961 का 23) की धारा 23 का संशोधन पंजाब कृषि उत्पादन बाजार अधिनियम 1961, जो चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त है, (इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 23 में “पचास पैसे” शब्दों के स्थान पर, “बो रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

3. (लौप किया गया) ।

[सं० यू-11015/8/74-यू० टी० एल० (127)]

जी० के० अनंत, संयुक्त सचिव ।

